

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2015—आश्विन 27, शक 1937

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 2-13-2011-छब्बीस-1-निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 24 अगस्त 2015 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी आधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित तीन विभागों की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है :-

अनुसूची "एक"

- (1) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
- (2) उच्च शिक्षा विभाग
- (3) संस्कृति विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन

विभाग का नाम:-(1) (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

श्रेणी	पद/वर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	सहायक यंत्री (सिविल)	79	79	05	02	01	02	05	-
	योग-	79	79	05	02	01	02	05	-

विभाग का नाम:-(2) (उच्च शिक्षा विभाग)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	सहायक कुल सचिव	19	19	1.14	01	-	-	01	-
	योग-	19	19	1.14	01	-	-	01	-

विभाग का नाम--(3) (संस्कृति विभाग)
विभागाध्यक्ष- संचालक, संस्कृति संचालनालय

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हकित पदों की संख्या कुल योग (6प्रतिशत)	चिन्हकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	04		-	-	-	-	-	-
	लेखा अधिकारी	01	05	-	-	-	-	-	-
	योग	05	05	-	-	-	-	-	-
तृतीय श्रेणी	ऑडीटर	02		-	-	-	-	-	-
	शीघ्रलेखक	01		-	-	-	-	-	-
	स्टेनोग्राफिस्ट	03	12	01	-	-	01	01	-
	सहायक ग्रेड-3	04		-	-	-	-	-	-
	वाहन चालक	02		-	-	-	-	-	-
	योग-	12	12	01	-	-	01	01	-
चतुर्थ श्रेणी	फर्रेश	01		-	-	-	-	-	-
	भृत्य	06	08	-	-	-	-	-	-
	चौकीदार	01		-	-	-	-	-	-
	योग-	08	08	-	-	-	-	-	-

विभागाध्यक्ष- संस्कृति संचालनालय
(3.1) (स्वीन्द्र भवन)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिह्नकित पदों की संख्या कुल योग (6प्रतिशत)	चिह्नकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	01	01	-	-	-	-	-	-
	योग-	01	01	-	-	-	-	-	-
तृतीयश्रेणी	सहायक ग्रेड-3	01		-	-	-	-	-	-
	केयर-टेकर	01		-	-	-	-	-	-
	साउन्ड ऑपरेटर	01	05	-	-	-	-	-	-
	कारपेन्टर	01		-	-	-	-	-	-
	इलेक्ट्रीशियन	01		-	-	-	-	-	-
	योग-	05	05	-	-	-	-	-	-
चतुर्थ श्रेणी	मृत्य	03		-	-	-	-	-	-
	चौकीदार	02		-	-	-	-	-	-
	स्वीपर कम फर्शिश	03	09	-	-	-	-	-	-
	स्टेज हेल्पर	01		-	-	-	-	-	-
	योग-	09	09	-	-	-	-	-	-

विभागाध्यक्ष- संचालक, संस्कृति संचालनालय
(3.2) (शासकीय संगीत महाविद्यालय)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप	
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
द्वितीय श्रेणी	व्याख्याता	02	02	-	-	-	-	-	-	
	योग-	02	02	-	-	-	-	-	-	
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	10	25	1.5	-	-	01	01	-	
	खल्लासी	04			-	-	-	-	-	-
	वाटरमेन	01			-	-	-	-	-	-
	चौकीदार	06			-	-	-	-	-	-
	स्वीपर	03			-	-	-	-	-	-
	चौकीदार(निश्चित वेतन)	01			-	-	-	-	-	
	योग	25	25	1.5	-	-	01	01	-	

विभागाध्यक्ष- संचालक, संस्कृति संचालनालय
(3.3) शासकीय ललित कला महाविद्यालय)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीयश्रेणी	व्याख्याता	12	12	01	-	-	01	01	-
तृतीय श्रेणी	योग..	12	12	01	-	-	01	01	-
	निर्देशक	03			-	-	-	-	-
	कनिष्ठ निर्देशक	03			-	-	-	-	-
	स्टूडियो सहायक	09	27	01	-	-	01	01	-
	ग्रंथपाल	03			-	-	-	-	-
	कुशल सहायक	02			-	-	-	-	-
	सहायक ग्रेड-3	07			-	-	-	-	-
चतुर्थ श्रेणी	योग-	27	27	01	-	-	01	01	-
	भृत्य	12			-	-	01	01	-
	उपस्थापक	02			-	-	-	-	-
	माली (नियमित आकस्मिकता)	01	18	01	-	-	-	-	-
	मैडसर्वेंट नियमित आकस्मिकता)	01			-	-	-	-	-
	चौकीदार	01			-	-	-	-	-
	स्वीपर	01			-	-	-	-	-
योग-	18	18	01	01	-	-	01	01	-